

प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा नए प्रोडक्ट का आरंभ और उत्कृष्ट कर्मचारियों का सत्कार

पुणे, 21 सितंबर, 2021 : बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश का सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक है। बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय, पुणे में वीडियो कॉन्फेरेन्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए।

श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए कहा कि इस कदम से बैंक की डिजिटल यात्रा में संवर्धन होगा और ग्राहकों की खुशियों में बढ़ोतरी होगी। बैंक की प्रगति में विभिन्न श्रेणियों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अपने स्टाफ सदस्यों का भी बैंक ने सत्कार किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यपालक निदेशक श्री हेमन्त टम्टा, श्री ए. बी. विजयकुमार के साथ महाप्रबंधकगण भी उपस्थित थे।

श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने कहा कि डिजिटाइजेशन यह बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने बैंक को सही मायनों में *तकनीक समर्थित स्मार्ट बैंक* बनाने पर जोर देते हुए कर्मचारियों को बधाइयाँ दी और निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

श्री हेमन्त टम्टा, कार्यपालक निदेशक ने कहा कि विवेकपूर्ण नीतियाँ अपनाते हुए बैंक निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और गुणवत्तापूर्ण ऋण देने की संस्कृति आत्मसात कर रहा है। श्री हेमन्त टम्टा ने बताया कि किस प्रकार बैंक ने "मैनेजमेंट बाय पैशन और मैनेजमेंट बाय कम्पैशन" के मंत्र को अपनाया है।

कार्यपालक निदेशक श्री ए. बी. विजयकुमार ने बैंक की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला और कहा कि बैंक ने अपने कर्मचारियों के समर्पित कार्य से कम अवधि में व्यवसाय में वृद्धि की है। उन्होंने बाजार के परिदृश्य के अनुसार और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुकूल प्रोडक्ट और नवोन्मेषी सेवाओं के कार्यान्वयन पर जोर दिया।

बैंक ने इस कार्यक्रम में हॉक-आई, महाबैंक डिजिटल रिवार्ड, कार्डलैश कैश आहरण, ई-रूपी तथा ऑनलाइन फार्म-16 और रिटेल स्कीम बुकलेट लॉन्च किया। हॉक-आई एक ऑटोमेटेड स्ट्रेस एनालॉइजिंग इंजन है, जो अपने आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण स्ट्रेस विश्लेषण द्वारा एसेट की निगरानी को मजबूत करता है। बैंक के निष्ठावान ग्राहकों को पुरस्कृत करने के लिए महाबैंक डिजिटल रिवार्ड्स लॉन्च किया गया जो कि एनपीसीआई के रिवार्ड प्लेटफार्म के समन्वय से डिजिटल चैनलों के माध्यम द्वारा विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के प्रयोग हेतु ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्डलैश कैश आहरण बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से नकदी आहरण की संकल्पना है। ई-रूपी भारत में सरलतापूर्वक रियल टाइम बैंक अंतरण और भुगतान सक्षम करने हेतु एनपीसीआई द्वारा तैयार किए गए यूपीआई इकोसिस्टम प्लेटफार्म पर निर्मित डिजिटल

भुगतान हेतु नकदीरहित और संपर्करहित सुविधा है। ऑन-लाइन फॉर्म-16 की सुविधा महाबैंक के पेंशनधारकों के लिए शाखा को भेंट दिए बिना डिजिटल चैनलों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

श्री वी. एन. कांबळे, महाप्रबंधक, संसाधन आयोजना ने उपस्थितों का स्वागत किया और श्री प्रदीप मिश्रा, उप महाप्रबंधक, संसाधन आयोजना विभाग ने आभार प्रदर्शन किया।